



CEPC
CARPET EXPORT PROMOTION COUNCIL

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्
CARPET EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Set up by Ministry of Textiles, Govt. of India)

Working Office : 2nd Floor, Rajiv Gandhi Handicrafts Bhawan, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi – 110001

Phone : +91-11-233 647 16, 233 64717

E-mail : info@cepc.co.in, Website : www.cepc.co.in

Regd. Office : Shreejee Complex, Shop No. T-3, Sharma Market, Harola, Noida (U.P.)

Website of Ministry of Textiles : www.textmin.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

22 दिसम्बर 2020

आज, दिनांक 22 दिसंबर, 2020 - भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शिल्प व्यक्तियों के एक विशाल खंड को रोजगार प्रदान करता है और देश की पारंपरिक विरासत को संरक्षित करते हुए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी उत्पन्न करता है।

परिषद् भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है जो उद्योग के दृढ़ समर्थन में है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रंगाई इकाइयों को बंद करने के कारण उद्योग को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

श्री सिद्ध नाथ सिंह अध्यक्ष कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें श्री ओंकार नाथ मिश्रा, अध्यक्ष एकमा, असलम महबूब, सचिव एकमा, इम्तेयाज अहमद, पंकज बरनवाल रूपेश बरनवाल, दीपक श्रीवास्तव प्रमुख निर्यातक और श्री संजय कुमार, अधिशासी निदेशक, शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने श्री भुवनेश कुमार, आईएएस, प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भदोही क्षेत्र में प्रदूषण के मुद्दे पर इकाइयों को बंद करने के संबंध बैठक की।

श्री सिद्ध नाथ सिंह ने उल्लेख किया कि अधिकांश इकाइयां सभी मानदंडों का पालन कर रही हैं और आवश्यक उपकरणों को भी स्थापित कर रही हैं, जबकि शेष अपनी इकाइयों को उन्नत करने की प्रक्रिया में। श्री सिंह लाखों गरीब कारीगरों और हस्तनिर्मित कालीन उद्योग से जुड़े अन्य लोगों की आजीविका को बचाने के लिए सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए अनुरोध किया।

श्री तिवारी ने उद्योग को अपना पूरा समर्थन और सहयोग देने का आश्वासन दिया और कहा कि एक सप्ताह के भीतर नमूनों की पुनः जांच की जाएगी और एक महीने के लिए इकाइयां खोल दी जाएंगी।